

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 608]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 नवम्बर 2018—कार्तिक 22, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2018.

फा. क्र. 5009-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के (ग्वालियर, अनूपपुर, नीमच एवं विदिशा जिलों से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर आफिसर/ जूनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

वे विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये  
पत्रों की सूची

स. क्र.	जिले का नाम	पत्र क्र. व दिनांक
1.	ग्वालियर	पत्र क्र./निर्वा./25-6/68/2018/13014, दिनांक 31.10.2018
2.	अनूपपुर	पत्र क्र./1632/19/ई/25/निर्वा. /लेखा/2018, दिनांक 03.11.2018
3.	नीमच	पत्र क्र./भा.निर्वा./2018/वि.का.दण्डा/3974, दिनांक 05.11.2018

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्रमांक निर्वा.-25-6-68-2014-13014

ग्वालियर दिनांक 31 अक्टूबर 2018

## विधानसभा निर्वाचन-2018

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने वाले प्रस्ताव

(एच.एस.टी. हेतु)

एस.एस.टी दल क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र क्र	उड़नदस्ता टीम प्रभारी का नाम	विभाग का नाम
5	15-ग्वालियर	श्री राजकुमार सिंह चौहान 9424791695	क्षेत्रीय वन अधिकारी सभान्ध वन मण्डल ग्वालियर
15	18-भितरवार	श्री राम निवास जायक राष्ट्रीय विकास विस्तार अधिकारी 9425740394	कृषि विभाग
	रिजर्व	श्री लखनलाल कोरी खाद्य सुरक्षा निरीक्षक	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर

## विधानसभा निर्वाचन-2018

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने वाले प्रस्ताव

(एच.एस.टी. हेतु)

एच.एस.टी दल क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र क्र	उड़नदस्ता टीम प्रभारी का नाम	विभाग का नाम
3	14-ग्वालियर ग्रामीण	श्री राजेश कुमार शर्मा सुखम निरीक्षक 8325001198	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर
5	15-ग्वालियर	श्री सुरेश सिंह कविता क्षेत्रीय वन अधिकारी	कार्यालय वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर
8	16-ग्वालियर पूर्व	श्री रामकुमार रावेलना सहायक गुणवत्ता नियंत्रक 7225018288	कार्यालय सहायक एच.एस.टी. ग्वालियर
11	17-ग्वालियर दक्षिण	रवि शिवहरे खाद्य सुरक्षा निरीक्षक 9630336011	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर
12	17-ग्वालियर दक्षिण	श्री पवन शर्मा निरीक्षक वाणिज्यिक	कुमारतीय उपायुक्त कार्यालय वाणिज्यिक ग्वालियर
19	18-भितरवार	श्री कल्पेश मिश्रा सहायक सहायक 9753307693	सहायक उपायुक्त वाणिज्यिक परिक्षेत्र ग्वालियर
21	19-उदर	श्री रातीश शर्मा खाद्य सुरक्षा निरीक्षक 7997821204	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर
	रिजर्व	श्री अजय कुमार शर्मा वाणिज्यिक अधिकारी	कुमारतीय उपायुक्त कार्यालय वाणिज्यिक ग्वालियर

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1632-19-ई-25-निर्वा.-लेखा-2018

अनूपपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2018

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी का प्रस्ताव का प्रपत्र

जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86-कोतमा

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सवा/सवना का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण जिले के लिये

जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.)

1	श्री डी.के. कुरवेती	अंकेक्षण अधिकारी	डी.आर.सी. एस. अनूपपुर	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर क्र. 17 धनगवाँ
---	---------------------	------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)

1	श्री रंजीत कुमार रघुवंशी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	पुष्पराजगढ़	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर क्र. 06 लेढरा
2	श्री एन.डी. गुप्ता	उप संचालक	किसान कल्याण विभाग अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	सेक्टर क्र. 08 घोघरी
3	श्री लक्ष्मण सिंह उद्रे	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	पुष्पराजगढ़	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर क्र. 16 करौंटी

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भा. निर्वा.), जिला नीमच मध्यप्रदेश

क्रमांक भा.निर्वा.-2018-वि.का.दण्डा-3974

नीमच, दिनांक 5 नवम्बर 2018

मध्यप्रदेश शासन, विधे और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/10/2018 का विधानसभा निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने हेतु नियुक्त सेक्टर ऑफिसरों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए उक्त कार्य हेतु विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी है, किन्तु जिला नीमच के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एफ.एसटी/एसएसटी हेतु अतिरिक्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	क्षेत्र
1	श्री शम्भू मेड़डा	जिला परियोजना प्रबंधक	जिला पंचायत नीमच	सम्पूर्ण जिले के लिए
2	श्री हुकुमचंद कुमावत	जिला प्रबंधक (सुक्ष्मवित्त)	जिला पंचायत नीमच	सम्पूर्ण जिले के लिए

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

फा. क्र. 9(क)-चार-2018/सेक्टर म./16486

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये पत्रों की सूची

स. क्र.	जिले का नाम	पत्र क्र. व दिनांक
1.	विदिशा	पत्र क्र-9/निर्वा.सा./संशोधित प्रस्ताव/2018/3620, दिनांक 02.11.2018

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

क्रमांक क्यू-9-निर्वा.सा.-संशोधित प्रस्ताव-2018-3620

विदिशा, दिनांक 30 अक्टूबर 2018

2 नवम्बर 2018

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्यप्रदेश)						
विधानसभा निर्वाचन 2018 सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/एफएसटी/एफएसटी की शक्तियां प्रदत्त हेतु प्रस्ताव						
स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वम का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालन दम्भाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	
1	3	4	5	6	7	
1	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव, 9424908387	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग ग्यारसपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
2	श्रीमती अनामिका मस्कोले, 9926376390	प्राध्यापक	शास.एल.बी.एल.कॉलेज सिरोज	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
3	डॉ. प्रमोद सेन, 9425722709	सहायक प्राध्यापक	शास.नवीन महाविद्यालय विदिशा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
4	डॉ.मीना श्रीवास्तव, 9425637470	प्राध्यापक	शास.महाविद्यालय कुरवाई	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
5	श्री आर.एस.लोधी, 9424412507	सहायक प्रबंधक	म.प्र.प्रा.स.वि.नि.पी.यू.आई.-1 विदिशा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
6	श्री जे.आर.प्रसाद, 9824871679	कार्यपालन यंत्री	सम्राट अशोक सगर संभाग-2	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
7	श्री बी.के.श्रीवास्तव, 9893673005	सहायक प्रबंधक	पी.आई.यू. विदिशा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
8	डॉ. चरण लाल वर्मा, 9425393370	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएँ विदिशा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
9	श्री विनोद भौराले	मण्डल तयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग	तृतीय अराजक पत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
10	श्री कैलाश चंद्र नामदेव,	प्रमारी, सी.एम.ओ.	नगर परिषद शमशाबाद	तृतीय अराजक पत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
11	श्री राजकुमार ठाकुर	सहकारिता विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत कुरवाई	तृतीय अराजक पत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
12	श्री सतीश कुमार जैन, 9981898474	प्रबंधक	मार्केटिंग सोसायटी कुरवाई	तृतीय अराजक पत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
13	श्री के.बी. किरार, 7974816922	सब इंजीनियर	सगड़ परियोजना, बासोदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए	
14	श्री हजारी लाल निमोरिया, 8770262353	वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकारी	उद्योगिकी विभाग बासोदा	तृतीय अराजक पत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	